



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 10 पटना, बुधवार, 16 फाल्गुन 1945 (श0)  
6 मार्च 2024 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-15	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 16-16	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क ---

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

19 फरवरी 2024

सं० पर्या०/जल०/परि०-21/2022-79/प0व0ज0प0—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा करने की दृष्टि से जीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या—जी.एस.आर. 1037 (ई०), दिनांक—05.12.1989 के तहत खतरनाक सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण के लिए नियमावली अधिसूचित की गई है।

2. उक्त अधिसूचना के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, के अर्द्ध-सरकारी पत्रांक—C-12013/12/2019-CS-III दिनांक—25.02.2022 द्वारा राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति गठन करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

3. उक्त अधिसूचना के आलोक में राज्य स्तर पर जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :—

(i)	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
(ii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार	सदस्य सचिव
(iii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	सदस्य
(iv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार	सदस्य
(v)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार	सदस्य
(vi)	राज्य के सूक्ष्मजीव विज्ञानी (microbiologist)/पैथोलॉजी (तकनीकी विशेषज्ञ)	सदस्य
(vii)	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना	सदस्य

राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति का कार्य विवरणी :—

राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति पर्यावरण, प्रकृति की रक्षा करने की दृष्टि से जीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में खतरनाक सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण से संबंधित निम्नलिखित कार्य करेगी :—

- राज्य जैव-प्रौद्योगिकी समन्वय समिति समय-समय पर जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms) को संभालने वाले विभिन्न संस्था एवं उद्योगों का समय-समय पर सुरक्षा और नियंत्रण उपायों की समीक्षा करना।
- इस समिति का कार्य मुख्य रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद एवं स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में निरीक्षण, जाँच और दण्डात्मक कार्रवाई करना।
- जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms) के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो तो उसका आँकलन करने के लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना और साइट पर नियंत्रण के उपाय करना।
- आवश्यक होने पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के लिए पर्यवेक्षण करना।
- ऐसे मामले में जहाँ पर्यावरण, प्रकृति या स्वास्थ्य के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति के द्वारा कोई भी आदेश या नोटिस जारी किये बिना आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए किये गये खर्च को नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था द्वारा चुकाया जायेगा।
- राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति आवश्यक होने पर विस्तार से जाँच हेतु जीवों और कोशिकाओं की नमूना संग्रहण कर सकती है।
- खतरनाक सूक्ष्मजीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण के लिए अधिसूचित नियमावली में उल्लेखित विभिन्न दायित्व को सम्पन्न करना।

4. उक्त अधिसूचना के आलोक में जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(i)	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	कारखाना निरीक्षक	सदस्य
(iii)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (जिला चिकित्सा पदाधिकारी)	सदस्य (संयोजक)
(v)	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
(vi)	नगर आयुक्त	सदस्य
(vii)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	जिला सूक्ष्मजीव विज्ञानी (microbiologist)/पैथोलॉजी (तकनीकी विशेषज्ञ)	सदस्य

**जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति का कार्य विवरणी :-**

- (क) जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms), खतरनाक सूक्ष्मजीवों से संबंधित गतिविधि में लगे प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। इस संबंध में सूचना चार्ट तैयार करना, इन प्रतिष्ठानों में किये गये जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms), खतरनाक सूक्ष्मजीवों से संबंधित स्थापना एवं इनसे जुड़े खतरों और जोखिमों का पता कर किसी भी आपातकालीन स्थिति को निपटने की दृष्टि से गतिविधियों का समन्वय करना।
- (ख) ऑफ-साइट आपातकालीन योजना (जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms), खतरनाक सूक्ष्मजीवों से संबंधित) तैयार करना।
- (ग) जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति नियमित रूप से अपने रिपोर्ट राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति/जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को प्रस्तुत करेगी।
- (घ) ऐसे मामले में जहाँ पर्यावरण, प्रकृति या स्वास्थ्य के किसी भी नुकसान को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति के द्वारा कोई भी आदेश या नोटिस जारी किये बिना आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए किये गये खर्च को नुकसान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/संस्था द्वारा चुकाया जायेगा।
- (ङ) जिला स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति आवश्यक होने पर विस्तार से जांच हेतु जीवों और कोशिकाओं की नमूना संग्रहण कर सकती है।
- (च) जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms), खतरनाक सूक्ष्मजीवों से संबंधित संभावित दुर्घटना से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने हेतु ऑफ-साइट योजना तैयार करना।
- (छ) खतरनाक सूक्ष्मजीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण के लिए अधिसूचित नियमावली में उल्लेखित विभिन्न दायित्व को सम्पन्न करना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बन्दना प्रेयषी, सचिव।

**Home Department  
(Police Branch)**

**NOTIFICATION  
The 23<sup>rd</sup> February 2024**

No. 7/CCA-1026/2001-2338/H(P)—Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh as Chief Justice of Orissa High Court, who was the Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981
2. National Security Act, 1980
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice Ashutosh Kumar

Chairman

Hon'ble Mr. Justice Gopal Prasad (Retired)

Member

Hon'ble Mr. Justice Prabhat Kumar Jha (Retired)

Member

The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar

Prakash Ranjan, Deputy Secretary.

संचिका सं०-2/थाना-10-95/2023-2348/गृ०आ०

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)  
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 फरवरी 2024 23.05.

2023

**विषय:-** अपराध एवं साम्प्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य के 43 पुलिस अनुमंडलों में पूर्व से सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित करने की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

वर्तमान में राज्य में कुल-129 अनुमंडलों में से 43 अनुमंडल अपराध एवं साम्प्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील हैं। इनमें से अधिकतर अनुमंडल जिला मुख्यालय के सदर अनुमंडल हैं एवं राज्य की अधिकतम शहरी आबादी इन्हीं 43 अनुमंडलों में है। इन अनुमंडलों का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है एवं कार्यबोझ अत्यधिक है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नियंत्रण में 3 थानों/प्रतिवर्ष 1200 कांडों के पर्यवेक्षण का मानक निर्धारित है। वर्तमान में राज्य के 129 पुलिस अनुमंडल (11 रेल पुलिस अनुमंडल सहित) कुल 1258 पुलिस थाना/ओ०पी० है, जिनका पर्यवेक्षण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। राज्य में सामान्यतः एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अन्तर्गत 9.75 पुलिस थाना/ओ०पी० हैं एवं उनके द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 2693 कांडों का पर्यवेक्षण किया जाता है जो कि राष्ट्रीय मानक से अत्यधिक है। अपराध एवं साम्प्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील राज्य के उक्त 43 अनुमंडल के अन्तर्गत औसतन 13 पुलिस थाना/ओ०पी० हैं एवं यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 2800 कांड प्रतिवेदित होते हैं। अतएव उक्त 43 पुलिस अनुमंडलों में अपराध नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं राष्ट्रीय मानक के दृष्टिकोण से पूर्व से सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा रहा है।

2. अतएव गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-9145 दिनांक 04.11.2019 द्वारा इन 43 पुलिस अनुमंडलों में सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पदों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पृथक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का सृजन नहीं किया जा रहा है।

3. पूर्व से सृजित एवं कार्यरत निम्नांकित कुल-43 अनुमंडलों में पूर्व से सृजित मूल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I के रूप में एवं प्रत्यावर्तित 43 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II के नाम से नामित होंगे:-

क्र०	जिला का नाम	क्र०	पु०अनु० का नाम	पूर्व से सृजित मूल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	प्रत्यावर्तित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
1	पटना	1	पटना सिटी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
		2	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
		3	बाढ़	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
		4	दानापुर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
		5	सचिवालय	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II
		6	मसौढ़ी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-I	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II

क्र0	जिला का नाम	क्र0	पु0अनु0 का नाम	पूर्व से सृजित मूल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	प्रत्यावर्तित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
		7	नगर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		8	विधि-व्यवस्था	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		9	फुलवारी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		10	फतुहौ	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		11	पालीगंज	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
2	नालंदा	12	हिलसा	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		13	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
3	रोहतास	14	सासाराम	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		15	डिहरी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
4	भोजपुर	16	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
5.	जहानाबाद	17	जहानाबाद	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
6	औरंगाबाद	18	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
7	गया	19	नगर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		20	शेरघाटी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
8	नवादा	21	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
9	सारण	22	मढ़ौरा	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		23	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
10	सिवान	24	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
11	गोपालगंज	25	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
12	बेतिया	26	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
13	मोतिहारी	27	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
14	मुजफ्फरपुर	28	नगर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		29	पश्चिमी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		30	पूर्वी	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
15	वैशाली	31	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
16	सीतामढ़ी	32	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
17	दरभंगा	33	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
18	मधुबनी	34	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
19	समस्तीपुर	35	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
20	कटिहार	36	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
21	पूर्णियाँ	37	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
22	किशनगंज	38	किशनगंज	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
23	भागलपुर	39	कहलगाँव	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
		40	नगर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
24	बाँका	41	बाँका	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
25	बेगूसराय	42	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥
26	खगड़िया	43	सदर	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-।	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥

- प्रत्यावर्तित 43 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-॥ के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किये जाने की कार्यवाही गृह विभाग के अनुमोदनोपरान्त पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा किया जायेगा।
- प्रत्यावर्तित 43 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय हेतु होने वाले व्यय की निकासी गृह विभाग के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-109-जिला-पुलिस, उपशीर्ष-0001-जिला कार्यकारी दल के विभिन्न विषय शीर्षों, विपत्र कोड-22-2055.00.109.0001 के

- अन्तर्गत उपबंधित राषि के विकलीनीय होगा एवं इसकी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक होंगे तथा राषि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
6. पूर्व से सृजित 43 अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रत्यावर्तित किये जाने में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
7. स्वीकृत्यादेश पर विभागीय संयुक्त आयुक्त-सह-वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,  
विनोद कुमार दास, सरकार के उप सचिव।

संचिका सं०-2/थाना-10-124/2023-2349/गृ०आ०  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)  
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 23 फरवरी 2024 2323.0

**विषय:-** आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने, विधि-व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित किन्तु कार्यरत राज्य के 176 (एक सौ छिहत्तर) ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति।

**आदेश:-** स्वीकृत।

वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित ओ०पी० कार्यरत है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह ओ०पी० एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। सभी ओ०पी० अपने पैतृक थाना के अन्तर्गत कार्य करते हैं, जिसके कारण ओ०पी० स्थायी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ओ०पी० की प्राथमिकी उनके पैतृक थाना में दर्ज होती है। ओ०पी० क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पैतृक थाना से दूरी होने के कारण उस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को पहुँचने में काफी समय लग जाता है, जिससे अपराधियों पर अंकुश रखने एवं अपराध नियंत्रण में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अपराधियों एवं अपराध पर नियंत्रण, विधि-व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिसूचित/गैर अधिसूचित किन्तु कार्यरत ओ०पी० को स्थायी एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु थाना के रूप में उत्क्रमित किया जा रहा है।

2. अतएव राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित किन्तु कार्यरत राज्य के 176 (एक सौ छिहत्तर) ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र०	जिला का नाम	थाना का नाम
1	मुंगेर	शामपुर
2		सफियासराय
3		हेमजापुर
4		टेटियाबम्बर
5		वासुदेवपुर
6		पुरबसराय
7	खगड़िया	पौड़ा
8		भरतखंड
9	बेगूसराय	रतनपुर
10		परिहारा
11		सिंघौल
12		छौड़ाही
13		रिफाईनरी
14		लोहियानगर
15		लाखो

क्र०	जिला का नाम	थाना का नाम
16	भागलपुर	जोगसर
17		सजौर
18		विश्वविद्यालय
19		बाखरपुर
20		ललमतिया
21		तिलकामांझी
22		गोराडीह
23		रसलपुर
24		अमडंडा
25		शिवनारायणपुर
26		मधुसूदनपुर
27		घोघा
28		बाईपास
29	नवगछिया	भवानीपुर
30	सहरसा	पतरघट

क्र०	जिला का नाम	थाना का नाम
31	सहरसा	बनमा ईटहरी
32		चिड़ैया
33		काशनगर
34		बैजनाथपुर
35		बलवाहाट
36	शेखपुरा	सिरारी
37		मिशन
38		हथियावां
39		महुली
40		सहायक थाना कसार
41		कुसुंभा
42		केवटी
43	पूर्णियाँ	अकबरपुर
44		बलिया
45		मोहनपुर
46		चम्पानगर
47		रघुवंशनगर
48		श्रीनगर
49	पूर्णियाँ	मधुबनी
50		सहायक खजौंची
51		मरंगा
52	कटिहार	मुफ्फसिल
53		पोठिया
54		रोशना
55		कचना
56		तेलता
57	जमुई	सालमारी
58		गिद्धौर
59	समस्तीपुर	चरकापत्थर
60		हलई
61		शिवाजीनगर
62		मोहनपुर
63		वैनी
64		मथुरापुर
65	सिवान	घटहो
66		धनौती
67		मजहरुल हक नगर

क्र०	जिला का नाम	थाना का नाम
68	सिवान	सराय
69		लकड़ी नबीगंज
70		महादेवा
71		चैनपुर
72	दरभंगा	वाजितपुर
73		नेहरा
74		बड़गाँव
75	गया	फेकला
76		बाँकेबाजार
77		गुरुपा
78		पाई बिगहा
79		पंचानपुर
80		डोभी
81		सरबहदा
82		पुरा
83		सिन्धुगढ़
84	नवादा	गेहलौर
85		बुंदेलखंड
86		कादिरगंज
87		शाहपुर
88		धमौल
89		रूपौ
90	लखीसराय	सीतामढ़ी
91		अमहरा
92		रामगढ़ चौक
93		माणिकपुर
94	पश्चिमी चम्पारण	कवैया
95		बथवरिया
96		पटखौली
97		भैरोगंज सहायक थाना
98		चिउटाहां
99		नवलपुर
100		मनुआपुल
101		जगदीशपुर
102		सिरिसिया
103		शनिचरी
104		कालीबाग
105		कुमारबाग

क्र०	जिला का नाम	थाना का नाम
106	पूर्वी चम्पारण	बंजरिया
107		रघुनाथपुर
108		अरेराज
109		भेलाही
110		हरपुर
111		लखौरा
112		जयबजरंग
113	सीतामढ़ी	भिट्ठा
114	भोजपुर	सिन्हा
115		गीधा
116		कृष्णागढ़
117		धोबहौ
118		बबुरा
119	पटना	आई0आई0टी0 अमहारा
120		पचमहला
121		सम्यागढ़
122		चित्रगुप्त नगर
123		लहसुना
124	गोपालगंज	श्रीपुर
125		माधोपुर
126	अरवल	मानिकपुर
127		शहरतेलपा
128	अररिया	आर0एस0
129		घुरना
130		बथनाहा
131	जहानाबाद	विशुनगंज
132		उमता धरनई
133		कल्पा
134		कड़ौना
135		टेहटा
136	मधुबनी	अररिया संग्राम
137		पतौना
138		आर0एस0
139		नरहिया
140		ललमनिया
141		औंसी
142	सारण	पहलेजा

क्र०	जिला का नाम	थाना का नाम
143	सारण	हरिहरनाथ
144		गौरा
145	रोहतास	धौडाढ़
146		बड्डी
147		यदुनाथपुर
148	मुजफ्फरपुर	पानापुर
149		बरियारपुर
150		सिकन्दरपुर
151		बेनीबाद
152	मुजफ्फरपुर	हत्था
153		फकुली
154		तुर्की
155	वैशाली	जैतपुर
156		रुस्तमपुर
157		बरौटी
158		चाँदपुरा
159		कटहरा
160	मधेपुरा	सहदेई
161		रतवारा
162		बेलाडी
163		भरौही
164	मधेपुरा	फुलौत
165		भतनी
166		अरार
167	सुपौल	परमानन्दपुर
168		राजेश्वरी
169		ललितग्राम
170		डगमारा
171		भीमनगर
172	किशनगंज	लौकहा
173		विशनपुर
174	नालन्दा	अर्रावाडी
175		कल्याण बिगहा
176	नालन्दा	गोकुलपुर



3. नवसृजित थानों के व्यय का वहन बजट शीर्ष-2055-पुलिस-लघु शीर्ष-109-जिला पुलिस कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड सं०-एन०-2055001090001 में विकलनीय होगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी।

4. नवसृजित थानों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन एवं क्षेत्राधिकार निर्धारण की कार्यवाई अलग से की जायेगी।

5. नवसृजित थानों के सृजन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

6. स्वीकृत्यादेश पर विभागीय संयुक्त आयुक्त-सह-वरीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,  
विनोद कुमार दास, सरकार के उप सचिव।

### सहकारिता विभाग

#### अधिसूचनाएं

25 जनवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.प्रो.- 79/2023-231/सह.-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1.	श्री मनोज कुमार सिंह	सहायक निबंधक, सं०स०	24 / 18
2.	श्री अजय कुमार अलंकार	संयुक्त निबंधक, सं०स०	25 / 18

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 13) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
मो० अब्दुल रब ख़ाँ, उप सचिव।

25 जनवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.प्रो.- 79/2023-233/सह.-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1.	श्री शम्भूसेन कुमार	उप निबंधक, सं०स०	47 / 18
2.	श्री मो० अमजद हयात बर्क	उप निबंधक, सं०स०	49 / 18

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर- 12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
मो० अब्दुल रब ख़ाँ, उप सचिव।

## 9 फरवरी 2024

सं० 01/रा. स्था. (नियुक्ति)-03/2024-394/सह.-बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूह-'ख') में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू० 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	रौल नं०	जन्म तिथि	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित पद/स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री राजीव कुमार यादव	330745	21.12.1993	मधुबनी	101	01	प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
2.	श्री मणि भूषण कुमार	621087	13.07.1991	पूर्वी चम्पारण	142	01	प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।
3.	श्री पप्पू कुमार	366235	11.10.1996	बेगूसराय	235	05	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर, आरा।
4.	श्री सौरभ किशोर	125055	08.08.1995	नवादा	263	05	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया।
5.	श्री मधुसूदन आनन्द	140726	11.12.1993	पूर्वी चम्पारण	281	05	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल।
6.	सुश्री मीनू कुमारी	298699	16.01.1995	दरभंगा	293	01	प्रशासी पदाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा।
7.	सुश्री आरूती कुमारी	539748	04.02.1998	गया	486	06	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम।
8.	सुश्री आकांक्षा	596266	31.03.1995	भोजपुर	585	06	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर।
9.	श्री आलोक कुमार	561301	26.04.1991	पटना	1220	03	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अ०र०), बिहार, पटना।

- चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।
- अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन

नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

- iii. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
  - iv. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मूल रूप में संबंधित संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
  - v. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1991 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
  - vi. औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे।
  - vii. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी।
  - viii. योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. औपबंधिक रूप से नियुक्त सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि :-
- i. पदस्थापित पद का प्रभार दिनांक-10.02.2024 तक ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
  - ii. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में दिनांक-12.02.2024 से प्रारंभ होने वाली द्वितीय कम्बाईड फाउंडेशन/इंडक्शन कोर्स के प्रशिक्षण हेतु दिनांक-11.02.2024 के अपराहन तक बिपार्ड, गया परिसर में निश्चित रूप से योगदान समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ऋचा कमल, अपर सचिव।

### 9 फरवरी 2024

सं० 01/रा. स्था. (नियुक्ति)-04/2024-395/सह.-बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 67वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूह-'ख') में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू० 53100-167800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-8 में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	रौल नं०	जन्म तिथि	गृह जिला	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापित पद/स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मो० फैसल अली	157105	12.01.1997	भागलपुर	141	01	अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, सुपौल।
2	श्री राजीव रंजन	179328	22.01.1991	जहानाबाद	230	07	अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, रोहतास।
3	श्रीमती बंदना भारती	672199	03.05.1994	बेगूसराय	390	01	अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, पटना।
4	श्रीमती श्री प्रभा	462584	01.01.1991	बाँका	571	04	अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, कटिहार।
5	सुश्री राखी कुमारी	515241	02.08.1993	शेखपुरा	1265	02	अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, सीवान।

- i. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।
  - ii. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
  - iii. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 02 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
  - iv. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे मूल रूप में संबंधित संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
  - v. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1991 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
  - vi. औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अपने कार्यालय के कार्यों का निष्पादन करेंगे। दैनिक कार्यों को छोड़कर प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्व सहित) का निष्पादन अपने नियंत्री पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ के आदेश/प्रतिहस्ताक्षर से करेंगे।
  - vii. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी।
  - viii. योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. श्री राजीव रंजन, नवनियुक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी एवं श्रीमती बंदना भारती, नवनियुक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी योगदान/प्रभार ग्रहण के पूर्व निश्चित रूप से वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग में समर्पित करेंगे।
3. औपबंधिक रूप से नियुक्त सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि :-
- i. पदस्थापित पद का प्रभार दिनांक-10.02.2024 तक ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
  - ii. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया में दिनांक-12.02.2024 से प्रारंभ होने वाली द्वितीय कम्बाईड फाउंडेशन/इंडक्शन कोर्स के प्रशिक्षण हेतु दिनांक-11.02.2024 के अपराहन तक बिपार्ड, गया परिसर में निश्चित रूप से योगदान समर्पित करेंगे।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ऋचा कमल, अपर सचिव।**

### 9 फरवरी 2024

सं० 01/रा. स्था.निजी-70/2022-402/सह.—श्री सिद्धार्थ केशरी, बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा चयन के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या-3788 दिनांक-30.12.2021 द्वारा परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा के पद पर नियुक्त किया गया है।

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्री सिद्धार्थ केशरी, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा में होने तथा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या-1578 दिनांक-27.01.2024 द्वारा औपबंधिक रूप से बिहार प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति करते हुए परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, भोजपूर के पद पर पदस्थापित करते हुए जिला पदाधिकारी के समक्ष योगदान समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

3. श्री सिद्धार्थ केशरी, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा के अनुरोध पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-1578 दिनांक-27.01.2024 के आलोक में परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता, भोजपूर के पद पर योगदान करने हेतु गहनाधिकार के साथ प्रभार त्याग की तिथि से विरमित किया जाता है।

4. श्री सिधार्थ केशरी, परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा को प्रभार त्याग की तिथि के प्रभाव से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा अंचल, रोसड़ा के पद से कार्य मुक्त किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

12 फरवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.से.संपु.— 25/2020-434/सह.—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है:-

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री श्रीन्द्र नारायण	जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद	20.10.2020	19.06.2023

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

16 फरवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.(स्थानान्तरण)-39/2023-479/सह.—श्री विकास कुमार बरियार, संयुक्त निबंधक, सं०स०, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार— संयुक्त निबंधक, सं०स०, कोशी प्रमंडल, सहरसा/उप निबंधक, सं०स०, कोशी प्रमंडल, सहरसा) को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निबंधक, सं०स०, सारण प्रमंडल, छपरा का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

16 फरवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.प्रो.— 79/2023-481/सह.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1.	श्री प्रभात कुमार	संयुक्त निबंधक, सं०स० का उच्चतर प्रभार	26/18

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. श्री कुमार द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

## 16 फरवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.प्रो.-79/2023-482/सह.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या— 19300, दिनांक—13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर— 12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:—

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1.	श्री सुभाष कुमार	उप निबंधक, सं०स० का उच्चतर प्रभार	50/18

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—19300, दिनांक—13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. श्री कुमार द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान— वेतन स्तर— 12) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

## 16 फरवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.(उच्च.प्रभार)—86/2023-483/सह.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या— 19300, दिनांक— 13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर— 09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:—

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1	श्री रवि शंकर	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	194/2015
2	श्री राजेश	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	225/2015
3	श्री मनोज कुमार	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	407/2015
4	श्री नरोत्तम पाण्डेय	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	408/2015
5	श्री इन्द्रजीत कुमार सिंह	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	410/2015
6	श्री अरुण कुमार	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	411/2015
7	श्री रमेश कुमार सिंह	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	412/2015
8	श्री जय प्रकाश सिंह	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	414/2015
9	श्री सुमन कुमार सिंह	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	415/2015
10	श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	416/2015
11	श्री विरेन्द्र कुमार	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का उच्चतर प्रभार	419/2015

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या— 19300, दिनांक— 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान— वेतन स्तर—09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

16 फरवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.(उच्च.प्रभार)-82/2023-484/सह.—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के मूल कोटि जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर- 09) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:—

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान कोटि	सिविल लिस्ट क्रमांक
1	2	3	4
1.	श्री कौशल किशोर	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सं०स०	104/07
2.	श्री कमलेश कुमार पाण्डेय	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सं०स०	105/07
3.	मो. शमीम आलम	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सं०स०	109/07
4.	श्री मनोज कुमार	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी, सं०स०	116/07

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 19300, दिनांक- 13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान- वेतन स्तर-09) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
स्मृति कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 51—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,  
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

31 जनवरी 2024

सं० 01/रा.स्था.प्रो.—79/2023—306/सह.—विभागीय अधिसूचना संख्या—231, दिनांक—25.01.2024 की कंडिका—01 के टेबल के क्रमांक— 01 में अंकित वर्तमान कोटि “सहायक निबंधक, सं०स०” को “संयुक्त निबंधक, सं०स०” पढ़ा एवं समझा जाय।

2. उक्त अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
मो० अब्दुल रब खाँ, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 51—571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>